



Hem

14 Jan 2017

07:29 AM

Junagarh

Model: Web-MyKundli

Order No: 121243701

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 14/01/2017
दिन _____: शनिवार
जन्म समय _____: 07:29:00 घंटे
इष्ट _____: 00:00:57 घटी
स्थान _____: Junagarh
राज्य _____: Gujarat
देश _____: India

अक्षांश _____: 21:32:00 उत्तर
रेखांश _____: 70:32:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:47:52 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 06:41:08 घंटे
वेलान्तर _____: -00:09:04 घंटे
साम्पातिक काल _____: 14:16:04 घंटे
सूर्योदय _____: 07:28:37 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:25:34 घंटे
दिनमान _____: 10:56:57 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: दक्षिण
ऋतु _____: शिशिर
सूर्य के अंश _____: 29:59:35 धनु
लग्न के अंश _____: 29:10:09 धनु

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: धनु - गुरु
राशि-स्वामी _____: कर्क - चन्द्र
नक्षत्र-चरण _____: आश्लेषा - 2
नक्षत्र स्वामी _____: बुध
योग _____: प्रीति
करण _____: गर
गण _____: राक्षस
योनि _____: मार्जार
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: जलचर
वर्ग _____: श्वान
युँजा _____: मध्य
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: डू-डूंगरमल
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: लौह - रजत
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मकर

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1938	पौष	24
पंजाबी	संवत : 2073	माघ	1
बंगाली	सन् : 1423	पौष	30
तमिल	संवत : 2073	थई	1
केरल	कोल्लम : 1192	मकरम	1
नेपाली	संवत : 2073	माघ	1
चैत्रादि	संवत : 2073	माघ	कृष्ण 2
कार्तिकादि	संवत : 2073	पौष	कृष्ण 2

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 2
तिथि समाप्ति काल _____ : 12:49:23
जन्म तिथि _____ : 2
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : आश्लेषा
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 22:55:02 घंटे
जन्म योग _____ : आश्लेषा
सूर्योदय कालीन योग _____ : प्रीति
योग समाप्ति काल _____ : 16:25:50 घंटे
जन्म योग _____ : प्रीति
सूर्योदय कालीन करण _____ : गर
करण समाप्ति काल _____ : 12:49:23 घंटे
जन्म करण _____ : गर
भयात _____ : 19:09:15
भभोग _____ : 57:44:19
भोग्य दशा काल _____ : बुध 11 वर्ष 3 मा 20 दि

घात चक्र

मास _____ : पौष
तिथि _____ : 2-7-12
दिन _____ : बुधवार
नक्षत्र _____ : अनुराधा
योग _____ : व्याघात
करण _____ : नाग
प्रहर _____ : 1
वर्ग _____ : मेष
लग्न _____ : तुला
सूर्य _____ : सिंह
चन्द्र _____ : सिंह
मंगल _____ : कन्या
बुध _____ : मिथुन
गुरु _____ : तुला
शुक्र _____ : वृश्चिक
शनि _____ : कर्क
राहु _____ : धनु

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र


लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

के मं शु		चं	
		रा	
बु ल सू	श	गु	

लग्न कुंडली

		के मं शु	
चं			
रा		ल सू बु	
	गु	श	

विंशोत्तरी
बुध 11वर्ष 3मा 20दि
बुध
14/01/2017
07/05/2131

बुध	06/05/2028
केतु	06/05/2035
शुक्र	06/05/2055
सूर्य	06/05/2061
चन्द्र	06/05/2071
मंगल	06/05/2078
राहु	06/05/2096
गुरु	07/05/2112
शनि	07/05/2131

योगिनी
भामरी 2वर्ष 7मा 28दि
उल्का
12/09/2024
12/09/2030

उल्का	12/09/2025
सिद्धा	12/11/2026
संकटा	13/03/2028
मंगला	13/05/2028
पिंगला	12/09/2028
धान्या	13/03/2029
भामरी	12/11/2029
भद्रिका	12/09/2030

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			धनु	29:10:09	368:18:37	उत्तराषाढा	1	21	गुरु	सूर्य	मंगल	---
सूर्य			धनु	29:59:35	01:01:06	उत्तराषाढा	1	21	गुरु	सूर्य	राहु	मित्र राशि
चंद्र			कर्क	21:07:55	13:55:24	आश्लेषा	2	9	चंद्र	बुध	शुक्र	स्वराशि
मंगल			कुंभ	25:17:44	00:45:08	पूर्वाषाढा	2	25	शनि	गुरु	बुध	सम राशि
बुध			धनु	06:47:23	00:39:29	मूल	3	19	गुरु	केतु	राहु	सम राशि
गुरु			कन्या	28:12:38	00:04:15	चित्रा	2	14	बुध	मंगल	शनि	शत्रु राशि
शुक्र			कुंभ	17:07:48	01:00:30	शतभिषा	4	24	शनि	राहु	शुक्र	मित्र राशि
शनि			वृश्चि	28:43:24	00:06:24	ज्येष्ठा	4	18	मंगल	बुध	शनि	शत्रु राशि
राहु	व		सिंह	09:46:55	00:02:29	मघा	3	10	सूर्य	केतु	शनि	शत्रु राशि
केतु	व		कुंभ	09:46:55	00:02:29	शतभिषा	1	24	शनि	राहु	गुरु	शत्रु राशि
हर्ष			मीन	26:34:15	00:00:49	रेवती	3	27	गुरु	बुध	गुरु	---
नेप			कुंभ	15:58:41	00:01:43	शतभिषा	3	24	शनि	राहु	शुक्र	---
प्लूटो			धनु	23:17:52	00:02:03	पूर्वाषाढा	3	20	गुरु	शुक्र	शनि	---
दशम भाव			तुला	12:14:50	--	स्वाति	--	15	शुक्र	राहु	शनि	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 24:05:36


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	धनु 16:20:56	धनु 29:10:09
2	मकर 16:20:56	कुम्भ 03:31:42
3	कुम्भ 20:42:29	मीन 07:53:16
4	मीन 25:04:03	मेष 12:14:50
5	मेष 25:04:03	वृष 07:53:16
6	वृष 20:42:29	मिथुन 03:31:42
7	मिथुन 16:20:56	मिथुन 29:10:09
8	कर्क 16:20:56	सिंह 03:31:42
9	सिंह 20:42:29	कन्या 07:53:16
10	कन्या 25:04:03	तुला 12:14:50
11	तुला 25:04:03	वृश्चिक 07:53:16
12	वृश्चिक 20:42:29	धनु 03:31:42


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	धनु	29:10:09
2	कुम्भ	04:35:17
3	मीन	10:32:57
4	मेष	12:14:50
5	वृष	09:05:16
6	मिथुन	03:34:23
7	मिथुन	29:10:09
8	सिंह	04:35:17
9	कन्या	10:32:57
10	तुला	12:14:50
11	वृश्चिक	09:05:16
12	धनु	03:34:23


तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा
ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद
रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य

चलित कुंडली



भाव कुंडली



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : बुध 11 वर्ष 3 मास 20 दिन

बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष	सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष
14/01/2017	06/05/2028	06/05/2035	06/05/2055	06/05/2061
06/05/2028	06/05/2035	06/05/2055	06/05/2061	06/05/2071
00/00/0000	केतु 02/10/2028	शुक्र 05/09/2038	सूर्य 24/08/2055	चंद्र 06/03/2062
14/01/2017	शुक्र 02/12/2029	सूर्य 05/09/2039	चंद्र 23/02/2056	मंगल 05/10/2062
शुक्र 30/07/2017	सूर्य 09/04/2030	चंद्र 06/05/2041	मंगल 29/06/2056	राहु 05/04/2064
सूर्य 06/06/2018	चंद्र 08/11/2030	मंगल 06/07/2042	राहु 24/05/2057	गुरु 05/08/2065
चंद्र 05/11/2019	मंगल 06/04/2031	राहु 06/07/2045	गुरु 12/03/2058	शनि 06/03/2067
मंगल 01/11/2020	राहु 23/04/2032	गुरु 06/03/2048	शनि 22/02/2059	बुध 05/08/2068
राहु 22/05/2023	गुरु 30/03/2033	शनि 06/05/2051	बुध 30/12/2059	केतु 06/03/2069
गुरु 26/08/2025	शनि 09/05/2034	बुध 06/03/2054	केतु 06/05/2060	शुक्र 05/11/2070
शनि 06/05/2028	बुध 06/05/2035	केतु 06/05/2055	शुक्र 06/05/2061	सूर्य 06/05/2071

मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष
06/05/2071	06/05/2078	06/05/2096	07/05/2112	07/05/2131
06/05/2078	06/05/2096	07/05/2112	07/05/2131	00/00/0000
मंगल 02/10/2071	राहु 16/01/2081	गुरु 24/06/2098	शनि 10/05/2115	बुध 03/10/2133
राहु 20/10/2072	गुरु 12/06/2083	शनि 05/01/2101	बुध 18/01/2118	केतु 30/09/2134
गुरु 26/09/2073	शनि 18/04/2086	बुध 13/04/2103	केतु 26/02/2119	शुक्र 15/01/2137
शनि 05/11/2074	बुध 04/11/2088	केतु 19/03/2104	शुक्र 28/04/2122	00/00/0000
बुध 02/11/2075	केतु 23/11/2089	शुक्र 18/11/2106	सूर्य 10/04/2123	00/00/0000
केतु 30/03/2076	शुक्र 22/11/2092	सूर्य 06/09/2107	चंद्र 08/11/2124	00/00/0000
शुक्र 30/05/2077	सूर्य 17/10/2093	चंद्र 05/01/2109	मंगल 18/12/2125	00/00/0000
सूर्य 05/10/2077	चंद्र 18/04/2095	मंगल 12/12/2109	राहु 24/10/2128	00/00/0000
चंद्र 06/05/2078	मंगल 06/05/2096	राहु 07/05/2112	गुरु 07/05/2131	00/00/0000

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल बुध 11 वर्ष 4 मा 10 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - शनि 26/08/2025 06/05/2028	केतु - केतु 06/05/2028 02/10/2028	केतु - शुक्र 02/10/2028 02/12/2029	केतु - सूर्य 02/12/2029 09/04/2030	केतु - चंद्र 09/04/2030 08/11/2030
शनि 29/01/2026 बुध 17/06/2026 केतु 14/08/2026 शुक्र 25/01/2027 सूर्य 15/03/2027 चंद्र 05/06/2027 मंगल 01/08/2027 राहु 27/12/2027 गुरु 06/05/2028	केतु 14/05/2028 शुक्र 08/06/2028 सूर्य 16/06/2028 चंद्र 28/06/2028 मंगल 07/07/2028 राहु 29/07/2028 गुरु 18/08/2028 शनि 11/09/2028 बुध 02/10/2028	शुक्र 12/12/2028 सूर्य 02/01/2029 चंद्र 07/02/2029 मंगल 03/03/2029 राहु 06/05/2029 गुरु 02/07/2029 शनि 08/09/2029 बुध 07/11/2029 केतु 02/12/2029	सूर्य 08/12/2029 चंद्र 19/12/2029 मंगल 26/12/2029 राहु 15/01/2030 गुरु 01/02/2030 शनि 21/02/2030 बुध 11/03/2030 केतु 18/03/2030 शुक्र 09/04/2030	चंद्र 26/04/2030 मंगल 09/05/2030 राहु 10/06/2030 गुरु 08/07/2030 शनि 11/08/2030 बुध 10/09/2030 केतु 23/09/2030 शुक्र 28/10/2030 सूर्य 08/11/2030
केतु - मंगल 08/11/2030 06/04/2031	केतु - राहु 06/04/2031 23/04/2032	केतु - गुरु 23/04/2032 30/03/2033	केतु - शनि 30/03/2033 09/05/2034	केतु - बुध 09/05/2034 06/05/2035
मंगल 16/11/2030 राहु 09/12/2030 गुरु 29/12/2030 शनि 21/01/2031 बुध 11/02/2031 केतु 20/02/2031 शुक्र 17/03/2031 सूर्य 24/03/2031 चंद्र 06/04/2031	राहु 02/06/2031 गुरु 24/07/2031 शनि 22/09/2031 बुध 16/11/2031 केतु 08/12/2031 शुक्र 10/02/2032 सूर्य 29/02/2032 चंद्र 01/04/2032 मंगल 23/04/2032	गुरु 08/06/2032 शनि 01/08/2032 बुध 18/09/2032 केतु 08/10/2032 शुक्र 04/12/2032 सूर्य 21/12/2032 चंद्र 18/01/2033 मंगल 07/02/2033 राहु 30/03/2033	शनि 02/06/2033 बुध 30/07/2033 केतु 22/08/2033 शुक्र 29/10/2033 सूर्य 18/11/2033 चंद्र 22/12/2033 मंगल 14/01/2034 राहु 16/03/2034 गुरु 09/05/2034	बुध 29/06/2034 केतु 21/07/2034 शुक्र 19/09/2034 सूर्य 07/10/2034 चंद्र 06/11/2034 मंगल 27/11/2034 राहु 21/01/2035 गुरु 10/03/2035 शनि 06/05/2035
शुक्र - शुक्र 06/05/2035 05/09/2038	शुक्र - सूर्य 05/09/2038 05/09/2039	शुक्र - चंद्र 05/09/2039 06/05/2041	शुक्र - मंगल 06/05/2041 06/07/2042	शुक्र - राहु 06/07/2042 06/07/2045
शुक्र 25/11/2035 सूर्य 25/01/2036 चंद्र 06/05/2036 मंगल 16/07/2036 राहु 14/01/2037 गुरु 26/06/2037 शनि 04/01/2038 बुध 26/06/2038 केतु 05/09/2038	सूर्य 23/09/2038 चंद्र 24/10/2038 मंगल 14/11/2038 राहु 08/01/2039 गुरु 25/02/2039 शनि 24/04/2039 बुध 15/06/2039 केतु 06/07/2039 शुक्र 05/09/2039	चंद्र 26/10/2039 मंगल 30/11/2039 राहु 01/03/2040 गुरु 21/05/2040 शनि 25/08/2040 बुध 19/11/2040 केतु 25/12/2040 शुक्र 05/04/2041 सूर्य 06/05/2041	मंगल 31/05/2041 राहु 03/08/2041 गुरु 28/09/2041 शनि 05/12/2041 बुध 03/02/2042 केतु 28/02/2042 शुक्र 10/05/2042 सूर्य 31/05/2042 चंद्र 06/07/2042	राहु 17/12/2042 गुरु 12/05/2043 शनि 02/11/2043 बुध 05/04/2044 केतु 08/06/2044 शुक्र 08/12/2044 सूर्य 31/01/2045 चंद्र 03/05/2045 मंगल 06/07/2045

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382
9835195382

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।

मूलांक	5
भाग्यांक	7
मित्र अंक	3, 5, 9, 7
शत्रु अंक	2, 4, 8
शुभ वर्ष	23,32,41,50,59
शुभ दिन	रवि, गुरु, मंगल
शुभ ग्रह	सूर्य, गुरु, मंगल
मित्र राशि	मीन, मेष
मित्र लग्न	मीन, सिंह, तुला
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	पुखराज
शुभ उपरत्न	सुनहला, पीला हकीक
भाग्य रत्न	माणिक्य
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	पीत
शुभ दिशा	पूर्वोत्तर
शुभ समय	संध्या
दान पदार्थ	हल्दी, पुस्तक, पीत पुष्प
दान अन्न	दाल चना
दान द्रव्य	घी

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382


9835195382

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पुखराज	गुरु	100%	व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य, सुख
माणिक्य	सूर्य	95%	स्वास्थ्य, भाग्योदय
गोमेद	राहु	80%	भाग्योदय, स्वास्थ्य
पन्ना	बुध	66%	स्वास्थ्य, दम्पति, व्यावसायिक उन्नति
मूंगा	मंगल	62%	पराक्रम, सन्तति सुख, कम खर्च
हीरा	शुक्र	44%	पराक्रम हानि, शत्रु व रोग, हानि
नीलम	शनि	31%	व्यय, धन हानि, पराक्रम हानि
लहसुनिया	केतु	25%	पराक्रम हानि, व्यय
मोती	चंद्र	0%	दुर्घटना



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
बुध	06/05/2028	100%	0%	62%	78%	100%	53%	31%	80%	25%
केतु	06/05/2035	83%	0%	69%	66%	100%	53%	6%	67%	50%
शुक्र	06/05/2055	83%	0%	62%	72%	100%	59%	44%	86%	38%
सूर्य	06/05/2061	100%	0%	69%	66%	100%	19%	6%	67%	0%
चंद्र	06/05/2071	100%	0%	62%	72%	100%	44%	31%	67%	0%
मंगल	06/05/2078	100%	0%	75%	53%	100%	44%	31%	67%	38%
राहु	06/05/2096	83%	0%	50%	66%	100%	53%	44%	92%	0%
गुरु	07/05/2112	100%	0%	69%	53%	100%	19%	31%	80%	25%
शनि	07/05/2131	83%	0%	50%	72%	100%	53%	53%	86%	0%

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022	17/01/2023-29/03/2025	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	13/07/2034-27/08/2036	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	27/08/2036-22/10/2038	05/04/2039-13/07/2039	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	28/01/2041-06/02/2041	26/09/2041-11/12/2043	23/06/2044-30/08/2044

द्वितीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054	02/09/2054-05/02/2055	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	11/07/2061-13/02/2062	07/03/2062-24/08/2063	06/02/2064-09/05/2064
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	24/08/2063-06/02/2064	09/05/2064-13/10/2065	03/02/2066-03/07/2066
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	13/10/2065-03/02/2066	03/07/2066-30/08/2068	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	04/11/2070-05/02/2073	31/03/2073-23/10/2073	-----

तृतीय चक्र:

अष्टम स्थानस्थ ढैया	12/04/2081-03/08/2081	07/01/2082-20/03/2084	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	19/09/2090-25/10/2090	21/05/2091-02/07/2093	-----
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/07/2093-18/08/2095	-----	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	18/08/2095-11/10/2097	02/05/2098-20/06/2098	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	26/12/2099-17/03/2100	16/09/2100-03/12/2102	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	पराक्रम
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	दम्पति
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	अशुभ	दुर्घटना
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	सम	बदनामी
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	शुभ	धनार्जन

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल चन्द्रकुंडली में अष्टम भाव में स्थित है। अतः आप एक मांगलिक पुरुष हैं। आपकी चन्द्रकुंडली में शास्त्रानुसार मंगली दोष भंग हो जाता है। अतः आपको इसके अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के यथोचित समय पर सिद्ध होते रहेंगे। विवाहोपरांत यदा कदा मध्यम रूप से पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है लेकिन इससे कोई हानि नहीं होगी। इसके शुभ प्रभाव से आप उत्तम शिक्षा प्राप्त करेंगे तथा भाई बहनों से भी जीवन में पूर्ण सुख तथा सहयोग अर्जित करेंगे। इस प्रकार आपका सम्पूर्ण जीवन सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य से सुसम्पन्न रहेगा।

यद्यपि यह मंगल आपके लिए सामान्यतया शुभ रहेगा परन्तु इसके प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब अवश्य होगा लेकिन विवाह कार्य अत्यंत ही शांत एवं सुखद वातावरण में सम्पन्न होगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार से व्यवधान या समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। विवाह के पश्चात आपका दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। परन्तु यदा कदा पत्नी के स्वास्थ्य में दुर्बलता आ सकती है। लेकिन आपके अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्य बिना किसी व्यवधान के सम्पन्न होंगे फलतः दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनी रहेगी।

आपकी चन्द्रकुंडली में मंगल अष्टम भाव में स्थित है। अतः आपके सभी व्यापारिक सांसारिक सामाजिक तथा पारिवारिक कार्य बिना किसी आवश्यक विघ्न बाधाओं तथा समस्याओं के सम्पन्न होते रहेंगे परन्तु यदा कदा पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि से आपके लाभ मार्ग हमेशा प्रशस्त रहेंगे। जीवन में आर्थिक स्थिति हमेशा सुदृढ़ रहेगी जिससे धन वैभव का कभी भी अभाव नहीं रहेगा। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी शिक्षा पूर्ण करेंगे। साथ ही आप पारिवारिक सुख को भी

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

प्राप्त करेंगे एवं परिवार में हमेशा सुख शान्ति बनी रहेगी। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तथा जीवन में भाई बहनों के सुख तथा सहयोग को प्राप्त करने में भी आप एक भाग्यशाली पुरुष होंगे। अतः मंगल के इस शुभ प्रभाव से आप सामान्यतया शान्ति एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय एवं आनंदमय बनाने के लिए आपको किसी ऐसी गैरमांगलिक या मांगलिक कन्या से शादी करनी चाहिए जिसकी कुंडली में नियमानुसार मांगलिक योग भंग हो रहा हो। इस प्रकार से यदि आप विवाह करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत ही सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा तथा सर्वत्र शुभ प्रभावों में भी वृद्धि होगी जिसके द्वारा आप सभी प्रकार से जीवन में सुख संसाधन धनऐश्वर्य एवं प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। समाज में एक प्रतिष्ठित तथा यशस्वी पुरुष के रूप में सम्माननीय समझे जाएंगे।

इसके अतिरिक्त जन्मपत्री मिलान के समय यदि कन्या की कुंडली में अष्टम भाव में ही मंगल हो तो यत्न पूर्वक ऐसे विवाह की उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि समान भावों में मंगल के रहने से आपके शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आएंगे तथा इसका दुष्प्रभाव आप दोनों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है जिससे दाम्पत्य सुखोपभोग में आप परेशानी की अनुभूति करेंगे। अन्य भावों में स्थित मंगल प्रायः शुभ फल ही प्रदान करेगा अतः सावधानी पूर्वक एवं सोच विचार कर अन्तिम निर्णय लेना चाहिए जिससे जीवन में अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न न हो। साथ ही दाम्पत्य जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो सके।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखचूड़ नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को भाग्योदय होने में थोड़ा व्यवधान उपस्थित होता है और नौकरी में आगे बढ़ने के प्रयास में आंशिक रूप से रुकावटें आती हैं। परन्तु कालान्तर में व्यवधान स्वतः हट जाता है और कभी नौकरी में अवनति का भय होता है। व्यापार में थोड़ी बहुत रुकावट आकर नुकसान को जातक प्राप्त करता है। मित्रों द्वारा कपट व्यवहार होने के कारण जातक को धन की क्षति उठानी पड़ती है। पिता के सुख में न्यूनता रहती है। मामा पक्ष से या बहनोई से छल कपट किये जाने पर जातक आंशिक कष्ट पाता है और शासन की तरफ से भी थोड़ा बहुत मुसीबत आती है। अधिकारियों से कभी-कभी मनमुटाव हो जाता है। जिस कारण जातक को न्यायालय से कभी जुर्माना या आंशिक रूप में सजा मिल सकती है।

इस योग के प्रभाव से जातक के शरीर में कभी-कभी रोग व्याधि ग्रसित कर लेती है। जिसमें थोड़ा बहुत धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति असामान्य हो जाती है। कालान्तर में पुनः वह सामान्य हो जाती है। जातक को चिन्ता परेशानी समय-समय पर लग जाती है और वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी दुःखमय बन जाता है तथा प्रायः भोग से अतृप्त रहती है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है। जातक कई प्रकार से धन्ये करता है पर स्थाई सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। सुख प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है और सामाजिक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा सामान्य रहती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

- नवम् भाव में राहु स्थित है एवं शनि से दृष्ट है।
- पंचम् भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।
- नवम् भाव के स्वामी पर राहु का प्रभाव है।

आपकी कुण्डली में सूर्य, मंगल और राहु के कारण पितृदोष है।

आपकी कुण्डली में सूर्य पितृदोष कारक ग्रह है अतः पिता के पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ गायत्री जप, सूर्योपासना, आदित्यहृदय स्तोत्र का पाठ, आक की समिधा से हवन करें। रविवार को गाय या बैल को गेहूँ और गुड़ खिलाएं।

आपकी कुण्डली में मंगल पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पुरुष सदस्य द्वारा क्रोधवश किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ आपको नौकर, छोटे भाईयों को दान देना चाहिए।

आपकी कुण्डली में राहु पितृदोष कारक ग्रह है अतः परिवार के किसी पूर्वज द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है। इस दोष के निवारणार्थ शनिवार गाय को सवा

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

पांच किलो जौ सवा किलो गुड़ में मिलाकर खिलाना चाहिए। सूखे गोले में पंजीरी भरकर काले कपड़े में लपेटकर किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में दबाएं। कबूतरों को दाना, चींटी को आटा तथा मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलायें।

आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह सूर्यबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

लग्न (प्रथम) में सूर्य हो तो जातक स्वाभिमानी, चंचल, कृशदेही, प्रवासी उन्नत नासिका, विशाल ललाटवाला, पित्त-वातरोगी, शूरवीर, अस्थिर सम्पत्तिवाला एवं अल्पकेशी होता है।

धनु राशि में रवि हो तो जातक विवेकी, योगमार्गरत, बुद्धिमान्, धनी, आस्तिक, व्यवहार कुशल, दयालु, शान्त, लोकप्रिय एवं शीघ्र क्रोधित होने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य लग्न में स्थित है। अतः पिता के आप प्रिय रहेंगे तथा उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं किसी भी प्रकार से शारीरिक रुग्णता का अभाव रहेगा। साथ ही उनकी आयु भी दीर्घ रहेगी। जीवन में वे आपको अपना आर्थिक तथा अन्य रूप से नित्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे जिससे आपके सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न होंगे। साथ ही पिता के द्वारा आपको ख्याति भी अर्जित होती रहेगी।

आपके मन में भी उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। साथ ही उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए भी आप तत्पर रहेंगे। आपके आपसी संबंध मधुर रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे लेकिन इसका संबंधों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आप जीवन में उनको पूर्ण रूप से आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे एवं अपनी ओर से कोई कष्ट भी नहीं होने देंगे।

चन्द्र

आठवेंभाव में चन्द्रमा हो तो जातक कामी, व्यापार से लाभवाला, विकास्त प्रमेहमरोगी, वाचाल, स्वाभिमानी, बन्धन से दुखी होने वाला एवं ईर्ष्यालु होता है।

कर्क राशि में चन्द्रमा हो तो जातक सम्पत्तिवान्, श्रेष्ठबुद्धि, जलविहारी, सन्ततिवान्, कामी, कृतज्ञ, ज्योतिषी, उन्माद रोगी, स्त्रियों के प्रभाव में आ जाने वाला, चंचलमन, अच्छा स्वभाव वाला, सुन्दर, दयालु, आवेशात्मक एवं विदेश यात्रा की ओर रुचि वाला होता है।

आपके जन्मकाल में चन्द्रमा की स्थिति अष्टम भाव में है। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके प्रति उनके मन में सामान्य प्रेम विद्यमान रहेगा एवं जीवन में समस्त महत्वपूर्ण कार्यों में वे आपको सहयोग तथा प्रोत्साहन प्रदान करती रहेंगी। आपके स्वास्थ्य के प्रति वे चिन्तनशील रहेगी एवं सर्वदा आर्थिक तथा अन्य सहायता करती रहेंगी। इसके अतिरिक्त उनसे आप कभी कभी विशेष धनार्जन करने में भी सफल हो सकेंगे।

आप का भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान का भाव रहेगा एवं उनकी सेवा तथा आज्ञा का पालन करने के लिए प्रायः तत्पर ही रहेंगे। आपके परस्पर संबंध अच्छे रहेंगे परन्तु यदा कदा आपसी मतभेदों के कारण इनमें कटुता भी आयेगी लेकिन कुछ समयोपरान्त स्वतः सब कुछ

सामान्य हो जाएगा। इसके साथ ही आपके परस्पर संबंध भी सामान्य ही रहेंगे।

मंगल

तृतीयभाव में मंगल हो तो जातक कटुभाष, भृत्कष्टकारक, प्रदीप्त जठराग्निवाला, बलवान्, बन्धुहीन, सर्वगुणी, साहसी, धैर्यवान् प्रसिद्ध एवं शूरवीर होता है।

कुम्भ राशि में मंगल हो तो जातक व्यसनी, लोभी, सट्टे से धननाशक, आचारहीन, मत्सरवृत्ति एवं बुद्धिहीन होता है।

आपके जन्म समय में मंगल तृतीय भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा तथा यदा कदा वे शारीरिक रूप से व्याकुलता की अनुभूति करेंगे। शक्ति, साहस तथा पराक्रम से वे युक्त रहेंगे। साथ ही जीवन में सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको यथायोग्य सहयोग प्रदान करते रहेंगे। धन धान्य से भी वे युक्त रहेंगे एवं समयानुसार आपकी आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। साथ ही सुख दुःख में आपकी पूरी सहायता करेंगे।

आपके हृदय में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह की भावना रहेगी एवं सर्वदा विषम परिस्थितियों में भी उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। आप के परस्पर संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा मतवैमिन्यता के कारण उनमें कटुता या तनाव भी उत्पन्न होगा परन्तु वह अल्प समय के लिए रहेगा कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही आप सुख दुःख में भी उनको अपनी ओर से पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप भाई बहिनों के सुख मध्यम रूप से ही अर्जित कर सकेंगे।

बुध

लग्न (प्रथम) में बुध हो तो जातक आस्तिक, गणितज्ञ, दीर्घायु, उदार-विनोदी, वैद्य, विद्वान्, स्त्रीप्रिय, मितव्ययी एवं मधुरभाषी होता है।

धनु राशि में बुध हो तो जातक विद्वान्, समाज में सम्मानित, गुणी, सुगठित शरीर, अविवेकी, अच्छा संगठनकर्ता, चतुर, ईमानदार, उदार, प्रसिद्ध, राजमान्य, लेखक, सम्पादक एवं वक्ता होता है।

गुरु

दशमभाव में गुरु हो तो जातक सुकर्म करने वाला, प्रसिद्ध और सम्मानित प्रतिष्ठित पद पर आसीन, सदाचारी, पुण्यात्मा, ऐश्वर्यवान्, साधु, चतुर, न्यायी, प्रसन्न, ज्योतिषी, सत्यवादी, शत्रुहन्ता, राजमान्य, स्वतन्त्र विचारक, मातृपितृ भक्त, लाभवान्, धनी एवं भाग्यवान् होता है।

कन्या राशि में गुरु हो तो जातक सुखी, भोगी, विलासी, चित्रकला, निपुण, चंचल, उच्चाकांक्षी, स्वार्थी, भाग्यवान्, विद्वान् एवं सन्तोषी होता है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

शुक्र

तृतीय भाव में शुक्र हो तो जातक विद्वान्, कलाकार, आलसी, कृपण, धनी, सुखी, पराकमी, भाग्यवान्, बहने भाईयों से अधिक एवं पर्यटनशील होता है।

कुम्भ राशि में शुक्र हो तो जातक शान्तिप्रिय, दूसरों को सहायता करने वाला, सच्चरित्र, सुन्दर, लोकप्रिय, चिन्ताशील एवं रोग से सन्तप्त होता है।

शनि

बारहवें भाव में शनि हो तो जातक आलसी, दुष्ट, व्यसनी, व्यर्थ व्यय करने वाला, अपस्मार, उन्माद का रोगी, मातुलकष्टदायक, अविश्वासी एवं कटुभाषी होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरध्दय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, कोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

राहु

नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रवासी, वातरोगी, व्यर्थ परिश्रमी, दुष्टबुद्धि, भाग्योदय से रहित, तीर्थाटनशील एवं धर्मात्मा होता है।

सिंह राशि में राहु हो तो जातक चतुर, विचारक, सज्जन, नीति दक्ष एवं सत्पुरुष होता है।

केतु

तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वायुजनित रोगों से पीड़ित, भाई बहन विहीन, धनी, व्यर्थवादी एवं भूतप्रेतभक्त होता है।

कुम्भ राशि में केतु हो तो जातक दुःखी, कर्णरोगी, भ्रमणशील, व्ययशील एवं साधारण धनी होता है।

दशा विश्लेषण

**महादशा :- बुध
(14/01/2017 - 06/05/2028)**

बुध की महादशा 14/01/2017 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 06/05/2028 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध लग्न में स्थित है। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर है। इसके पहले आपकी 19 वर्ष की शनि की दशा चल रही थी। उस दशा के दौरान आपको समृद्धि की प्राप्ति, जीवन वृत्ति में प्रगति तथा यात्रा हुई होगी। बुध की इस दशा के दौरान जीवन का सुख, माता से लाभ, सुखमय वैवाहिक जीवन तथा जीवन में प्रगति होगी।

स्वास्थ्य :

बुध के अपनी ही राशि में होने के कारण आपको उत्तम स्वास्थ्य तथा जीवनी शक्ति की प्राप्ति होगी। आप में शक्ति तथा उत्साह होगा तथा आप अशावादी और प्रसन्न होंगे। आपका व्यक्तित्व व रंगरूप आकर्षक होगा। अधिक परिश्रम तथा थकावट के कारण कोई संक्रामक बीमारी, बुखार अथवा स्नायविक दुर्बलता आदि मौसमी बीमारी हो सकती है।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आप स्वयं धनोपार्जन करेंगे। आपको सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी। जीविका तथा व्यवसाय के लिये लेखा, पत्रकारिता, शिक्षण, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, वैभानिकी तथा मस्तिष्क से संबद्ध सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखन-सामग्री, कम्प्यूटर और हस्तनिर्मित वस्तुओं का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अचानक लाभ होगा, कार्य-स्थान में स्थिति अनुकूल होगी और उच्च पद तथा अधिकार की प्राप्ति होगी। आपको उच्चाधिकारियों का सद्भाव तथा अधीनस्थ कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय तथा लाभ में वृद्धि होगी। इस दशा के दौरान आपको कठिन परिश्रम करना होगा। व्यापारी वाणिज्य व्यापार में कुशल होंगे और उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक-समृद्धि तथा जीवन-वृत्ति में उन्नति के लिये यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन जायदाद :

बुध की अन्तर्दशा में जीवन तथा वाहन का सुख मिलेगा। बुध की दशा के दौरान आपको सभी सुख, माता से लाभ तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और आपकी जमीन-जायदाद में भी वृद्धि होगी। सम्पत्ति के सभी लेन-देन लाभदायक होंगे। सूर्य की अन्तर्दशा में छोटी तथा शुक्र की अन्तर्दशा में लम्बी यात्राएं होंगी।

शिक्षा :

इस दशा के दौरान आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप अपनी परीक्षा में सफल होंगे। आप विज्ञान, गणित तथा व्यापार में प्रवीण होंगे। आप तेज हैं और अपनी वाक्पटुता के कारण जाने जाएंगे। लेखा, वाणिज्य, साहित्य तथा ललितकला में भी आपकी रुची होगी। आप तेज, कूटनीतिज्ञ, व्यवहार कुशल, सर्वतोमुखी हैं और विविध विषयों में रुचि रखते हैं।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

परिवार :

परिवार के साथ आपका सम्बन्ध बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होगी, उनकी शिक्षा उत्तम होगी और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनके साथ आपका संबंध बहुत सुन्दर रहेगा। आपके जीवनसाथी की यात्रा होगी और उन्हें सम्पत्ति तथा साझेदारी में लाभ की प्राप्ति होगी। जीवनसाथी के साथ आपका संबंध अत्यन्त मधुर रहेगा। आपकी माता का जीवन अत्यन्त सफल रहेगा और उन्हें सम्पत्ति, यश और ख्याति की प्राप्ति होगी। आपके पिता का सट्टे तथा ऊँचे कारोबार में निवेश सफल रहेगा। आपके छोटे भाई-बहनों को विभिन्न स्रोतों से लाभ, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति तथा उनके मित्र प्रभावशाली होंगे। आपके बड़े भाई-बहनों की शिक्षा उत्तम होगी, उनके अनेक मित्र होंगे और उन्हें सम्पत्ति तथा माता से लाभ की प्राप्ति होगी। उनके साथ आपके सम्बन्ध अत्यन्त मधुर होंगे।

अन्तर्दशा :

बुध की मुख्य दशा में बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आपको सम्पत्ति तथा सुख की प्राप्ति होगी। आगे केतु की अन्तर्दशा आपके लिए कुछ समस्याएं खड़ी कर सकती है। शुक्र के कारण आपको बच्चों से सुख तथा सट्टे में लाभ मिलेगा। सूर्य के कारण आपकी छोटी यात्राएं होंगी जबकि उसके बाद आनेवाली चन्द्रदशा के फलस्वरूप आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा में लाभ तथा विरोधियों पर विजय मिलेगी जबकि राहु की अन्तर्दशा के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु के फलस्वरूप आपको साझेदारों से लाभ तथा जीवन-वृत्ति में प्रगति होगी। शनि की अन्तर्दशा के दौरान कुछ परिवर्तन होगा और धन तथा समृद्धि की प्राप्ति होगी।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382


**महादशा :- केतु
(06/05/2028 - 06/05/2035)**

केतु की महादशा 06/05/2028 को आरम्भ और 06/05/2035 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में केतु तृतीय भाव में स्थित है। केतु की दृष्टि नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी बुध की दशा चल रही थी जिसकी अवधि 17 वर्ष थी। बुध के कारण आपको जीवन का सुख, सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हुई होगी। केतु की वर्तमान दशा में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा सफलता और संबंधियों से सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होगी। मौसम में परिवर्तन के कारण आपको पित्तदोष, फोड़ा-फुन्सी, विषाणुजन्य संक्रामक रोग, गले से संबंधित बीमारी आदि हो सकती है। कुछ सतर्कता से इनसे बचाव किया जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपकी स्व-अर्जित सम्पत्ति होगी। आपकी आय में वृद्धि होगी और सभी सुख मिलेगा। आपको सट्टे में अच्छा लाभ मिलेगा और निवेश लाभदायक रहेगा। जीविका के लिये दवा, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, सरकारी सेवा, लोक प्रशासन, सैन्य तथा राजनीतिक सेवा, तकनीकी विज्ञान, पेशेवर खेल आदि का चयन कर सकते हैं। चमड़े के सामान, सोना रत्न, संगमरमर, अनाज आदि का व्यापार लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को यश, ख्याति, आय में वृद्धि तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। सहकर्मी तथा सहायक से सहायता मिलेगी और वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है किन्तु उनमें बाधाओं पर विजय पाने का संकल्प है। दशा में प्रगति के साथ-साथ स्थिति में सुधार होगा।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

बुध की अन्तर्दशा के दौरान आपको जीवन का सुख मिलेगा। आप अपना आवास बदल सकते हैं। आप एक नयी गाड़ी खरीद सकते हैं। जमीन-जायदाद के लेन-देन सावधानी से करें ताकि छोटे-मोटे नुकसानों को रोका जा सके। सूर्य की अन्तर्दशा में आपकी छोटी यात्रा होगी। इसकी पूरी दशा में आपकी छोटी यात्रा होगी। शुक्र की अन्तर्दशा के दौरान दूर की यात्रा की सम्भावना है।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप वाद-विवाद, कला-प्रदर्शन और खेल में बहुत सफल होंगे। आप परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में अच्छा करेंगे। दवा, कम्प्यूटर, भूगर्भ-शास्त्र, प्रशासनिक सेवा, कला, दर्शनशास्त्र आदि में आपकी रुचि होगी। आप दृढ़निश्चय और एकाग्रचित्त हैं और अपनी शिक्षा में अच्छा करेंगे।

परिवार :

परिवार के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा। आपके बच्चे धनवान होंगे, उनके लक्ष्यों की पूर्ति होगी और आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवनसाथी की यात्रा और समृद्धि की प्राप्ति होगी और धार्मिक कार्यों की ओर उनका झुकाव होगा। आपके पिता को साझेदारों से लाभ मिलेगा, उनकी यात्रा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को यश, ख्याति और सम्पत्ति मिलेगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, उत्तम शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपको सफलता और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुक्र के फलस्वरूप आपको आराम, सुख और उत्तम शिक्षा की प्राप्ति तथा यात्रा होगी। सूर्य के कारण आपकी छोटी यात्रा होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और सगे संबंधियों से सहायता मिलेगी जबकि चन्द्र की दशा में लाभ और पारिवारिक आनन्द मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा के दौरान स्वास्थ्य के खराब होने, विरोध और सम्पत्ति-लाभ की सम्भावना है। राहु के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपका विवाह होगा, जीविका में प्रगति और साझेदारों से लाभ मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा में

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

कुछ परिवर्तन, पिता से लाभ, यात्रा और अध्यात्म में रुचि होगी। बुध की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपके पिता को साझेदारों से लाभ मिलेगा, उनकी यात्रा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को यश, ख्याति और सम्पत्ति मिलेगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, उत्तम शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

अंतर्दशा :- केतु - केतु
(06/05/2028 - 02/10/2028)

आपके लिए केतु महादशा 06/05/2028 को आरंभ हुई है। इस महादशा में पहली अंतर्दशा केतु की होगी जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 06/05/2028 को प्रारंभ होकर 02/10/2028 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु मोक्ष, अचानक घटने वाली घटना और नाना का कारक है।

इस अवधि में आपके भाई-बहनों से उत्तम संबंध रहेंगे। यात्रा से लाभ होगा। शत्रु पराजित होंगे, धन में बढ़त होगी। हिम्मत खूब होगी, जोखिमपूर्ण खेलों में रुचि हो सकती है। वैराग्य या संयमित जीवन जीने की भावना जागृत हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हाथों में कुछ दर्द हो सकता है। किस्मत साथ देगी। शिक्षा द्वारा प्रसिद्ध हो सकते हैं। तीर्थयात्रा, विदेश यात्रा, धन और निवेश की संभावना है।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली होंगे, धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदार से लाभ होगा। माता के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं होंगी। अध्यात्म में रुचि होगी। आपके भाई-बहनों के लिए प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, व्यापार योजना, निवेश से लाभ और कला में रुचि का संकेत है।

आपकी संतान सफल और धनी होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो सफल होंगे, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। परामर्शदाता स्पर्धियों पर सफलता प्राप्त करेंगे; उत्साह से पूर्ण रहेंगे। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे, खूब धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए उड़द की दाल, कंबल और तिल का तेल दान करें।

अंतर्दशा :- केतु - शुक्र
(02/10/2028 - 02/12/2029)

केतु महादशा में शुक्र अंतर्दशा की अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी।

इस अवधि में आपके उत्साह और लोकप्रियता में वृद्धि होगी। मार्केटिंग गतिविधियों में सफल होंगे, धनार्जन उत्तम होगा। यात्राओं का आनंद ले सकते हैं। विवाहित जीवन सुखी रहेगा। विलास के साधन क्रय कर सकते हैं। आपके मित्र मददगार साबित होंगे। वरिष्ठजन आप से प्रसन्न रहेंगे। विज्ञापन क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। लोकप्रिय और प्रसिद्ध होंगे। धर्म में रुचि हो सकती है।

आपके जीवनसाथी प्रसिद्ध होंगे, धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा। आपके भाई-बहनों के लिए धनलाभ, विवाह, सुख और मित्रों से लाभ का संकेत है। आपकी संतान को स्पर्धा में सफलता मिलेगी, सुख के साधन उपलब्ध होंगे। अगर वे कार्यरत हैं

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382
9835195382

तो धनार्जन उत्तम रहेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। परामर्शदाताओं को स्पर्धियों पर विजय मिलेगी। व्यापारी धनी बनेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए गरीबों और महिलाओं की सेवा में सक्रिय संस्था में दान दें।

**अंतर्दशा :- केतु - सूर्य
(02/12/2029 - 09/04/2030)**

आपके लिए केतु महादशा 06/05/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 4 मास 6 दिन होगी जो आपके लिए 02/12/2029 को प्रारंभ होकर 09/04/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य पिता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कार्यक्षमता और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आप सफल होंगे, प्रगति करेंगे, प्रसिद्धि मिलेगी। उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप में जन्मजात नेतृत्व के गुण हैं, प्रबंधन क्षमता उत्तम है। आप उच्चपद पर आसीन होंगे, सम्मान मिलेगा। विवाहित जीवन में कुछ तनाव हो सकता है। इसे नीतिपूर्ण व्यवहार और धैर्य द्वारा सुलझाया जा सकता है। आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, प्रोन्नति हो सकती है, वांछित स्थान पर तबादला हो सकता है, व्यापार में लाभ होगा।

आपके जीवनसाथी का धनार्जन उत्तम होगा, उच्चाधिकारी उनसे प्रसन्न रहेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे, उच्चपद प्राप्त करेंगे। माता सफल रहेंगी, उच्चपद पर आसीन होंगी।

आपके भाई-बहनों के लिए परिश्रम द्वारा सफलता, सरकार से लाभ, धन, सुख-साधन, साहित्य या मीडिया से लाभ और उत्तम स्वास्थ्य का संकेत है। आपकी संतान भाग्यशाली रहेगी, गुरुजन उनसे प्रसन्न रहेंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, यात्राएं होंगी, उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, तबादला संभव है। परामर्शदाता सफल रहेंगे। व्यापारियों को साझेदारी से लाभ होगा।

शुभत्व में वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें।

**अंतर्दशा :- केतु - चन्द्र
(09/04/2030 - 08/11/2030)**

आपके लिए केतु महादशा 06/05/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में चंद्रमा अंतर्दशा की अवधि 7 मास रहेगी जो आपके लिए 09/04/2030 से प्रारंभ होकर 08/11/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मन, भावनाओं और माता का कारक है।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र
लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382
9835195382

इस अवधि में आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। जीवनसाथी के धन से धनार्जन हो सकता है। घरेलू जीवन सुखी रहेगा। आप धनी बनेंगे, सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। शिक्षा उत्तम होगी। मधुर वाणी के कारण लोकप्रिय बनेंगे। परिवार सुखी होगा। राजनीति या समाज सेवा में भाग ले सकते हैं। आपके जीवनसाथी धनी बनेंगे उन्हें सब सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। आपके पिता के खर्चे बढ़ सकते हैं। माता को संतान से सुख मिलेगा; निवेश से लाभ होगा।

आपके भाई-बहनों के लिए कार्यों में बाधा, स्पर्धा में वृद्धि, बहुत मित्र, धन और संतान से प्रसन्नता का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी, नींव सुदृढ़ बनेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो अचल संपत्ति क्रय करना उनके लिए लाभकारी हो सकता है।

अगर आप सेवारत हैं तो सफल रहेंगे। परामर्शदाताओं को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

स्वास्थ्य का ध्याम रखना श्रेयस्कर रहेगा। श्वसन तंत्र के रोगों से बचाव करें। अरिष्ट से बचाव के लिए चंद्रमा के मंत्र का जाप करें।

ॐ सौं सोमाय नमः

**अंतर्दशा :- केतु - मंगल
(08/11/2030 - 06/04/2031)**

आपके लिए केतु की महादशा 06/05/2028 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में मंगल अंतर्दशा की अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी जो आपके लिए 08/11/2030 को प्रारंभ होकर 06/04/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। स्पर्धियों पर विजय होगी, सफल और प्रसिद्ध होंगे। संतान से सुख मिलेगा। तकनीकी कार्यों में दक्ष बनेंगे, स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप सफल, प्रसिद्ध होंगे; उच्चपद प्राप्त करेंगे, यात्राएं होंगी।

आपके जीवनसाथी की यात्राएं होंगी, आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, तो धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदारी से लाभ होगा। माता के खर्चे बढ़ सकते हैं।

आपके भाई-बहनों के लिए सौभाग्य, उत्तम स्वास्थ्य, कार्यों में सफलता और शत्रुओं पर विजय का संकेत है। बड़े भाई-बहनों को निवेश से लाभ होगा, धनी बनेंगे, उच्चपद प्राप्त कर सकते हैं।

आपकी संतान की शिक्षा, उत्साह और संकल्प शक्ति उत्तम होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी और सफल होंगे, प्रभावशाली मित्र होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो स्पर्धियों पर विजयी रहेंगे, उच्चपद प्राप्त करेंगे।

ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382

परामर्शदाताओं के कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए शिवजी की उपासना करें।



ज्योतिष ग्रह रत्न केंद्र आचार्य शशि कांत मिश्र

लाइन तलाव रांची झारखंड

9835195382

9835195382